



असाधारण
EXTRAORDINARY.

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शक्रवार, जनवरी 1, 1982/पौष 11, 1903

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

(33)

(ख) यदि ऐसी दियामलाइयों के स्लिड बॉक्स में बनाए जाते हैं और दियामलाइया 10 के डिग्री में बक्सों में पैक की जाती हैं तो शुल्क की दर, समरूप वर्णन की ऐसी दियामलाइयों की जो एक ही कारखाने में उत्पादित की जाती हैं, किन्तु दियामलाइया 50 के डिग्री में बक्सों में पैक की जाती हैं, लागू दर की 1/5 होगी और यदि दियामलाइयों की 50 के डिग्री में बक्सों में इस प्रकार पैकिंग नहीं की जाती है तो वह 50 के डिग्री में बक्सों में पैक की गई दियामलाइयों के लिए काल्पनिक रूप से अधिभारित दर की 4/5 होगी :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात उन दियामलाइयों को लागू नहीं होगी, जिनमें बाहरी स्टांड या भीतरी स्टांड या दोनों काटेबोर्ड में बनाई जाती है।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

- (क) बेनियर चपटी-गिटियां या स्लिप्स को दियामलाइ के काम के प्रयोग से, दियामलाइ के बक्स की, जिनके अन्तर्गत बाहरी स्टांड या भीतरी स्टांड भी हैं, आकृति देने की प्रक्रिया
- (ख) फंस भरने
- (ग) दियामलाइ की नीली के सिंगे के लिए सम्मिश्रण में स्पिन्ट को डुबाने;
- (घ) दियामलाइयों का बक्सों में भरने;
- (ङ) दियामलाइ के बक्सों या बेनियरों पर चिपका कर या किसी अन्य माध्यम से लेबल चिपकाने की प्रक्रिया;
- (च) केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क स्टाम्प चिपकाने;
- (छ) पैक करने

के लिए अनुरोध की जाने वाली यांत्रिक प्रक्रिया से निम्न कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी।

[फा० सं० 335/24/81-टी.एन.ए.०५०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st January, 1982

(NO. 2/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 99/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, the Central Government hereby exempts matches, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, in respect of the first clearances for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories up to an aggregate not exceeding thirty million matches cleared during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982, and ending with the 31st day of March, 1982, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 1.60 per gross boxes of 50 matches, subject to the condition that clearances by the said manufacturer during the aforesaid

period does not exceed 37.5 million matches and also subject to the following other conditions, namely :—

- (i) the total production of matches in a calendar month during the aforesaid period by or on behalf of a manufacturer from one or more factories does not exceed 15 million matches;
- (ii) the total clearances, if any, of matches by a manufacturer by or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1981 and ending on the 31st day of December, 1981 did not exceed 150 million matches;
- (iii) the manufacturer makes a declaration that the total clearances of matches by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, is not likely to exceed 30 million matches;

Provided that—

- (a) the amount of exemption shall be increased by 50 paise per gross boxes of 50 matches if bamboo is used for the splints or for both splints and veneers;
- (b) if the splints of such matches are made of bamboo and the matches are packed in boxes of 40 matches, the rate of duty shall be four-fifths of the rate applicable to matches of identical description produced in the same factory but packed in boxes of 50 matches and if such packing in boxes of 50 matches is not done, it shall be four-fifths of the notionally determined rate for matches packed in boxes of 50 matches;

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to matches packed in boxes in which the outer slide or the inner slide or both are made of cardboard.

EXPLANATION:—For the purposes of this notification, no process other than the mechanical process employed for—

- (a) the process of giving the veneer flats or strips the configuration of a match box including the outer slide or the inner slide with the use of match paper;
- (b) frame filling;
- (c) dipping of splints in the composition for match heads;
- (d) filling of boxes with matches;
- (e) the process of affixing labels, by pasting or any other means, on match boxes or veneers;
- (f) affixing of Central Excise Stamps;
- (g) packaging;

Shall be deemed to be a process ordinarily carried on with the aid of power.

IF. No 335/24/81-TRU

(सं० 1/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सं० का० सि० 3(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं० 38 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी दियामलाइयों को, जिनके विनिर्माण में या जिनके विनिर्माण के सम्बन्ध में कोई भी पत्तियां खादी और ग्रामीणों के द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले कारखानों से धरे हुए उपयोग के लिए प्रथम निकाली की शक्ति सामान्यतया शक्ति की सहायता के बिना नहीं की जाती है और जिनकी निकाली 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च,

No. 3/82-CENTRAL EXCISES

1982 की समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन करोड़ से अधिक नहीं है, उन पर उद्वेगपूर्ण उतने उत्पाद-शुल्क में छूट होती है जितना 50 वियामलाइयों के बक्सों के प्रति गुरुस पर 1.60 रुपए से अधिक है परन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त कारखाने में पूर्वोक्त अवधि के दौरान निकासी 3 करोड़ 75 लाख वियामलाइयों से अधिक नहीं होती है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगी, अर्थात्:

(i) उक्त कारखाने द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान किसी एक कलेंडर मास में वियामलाइयों का कुल उत्पादन 1 करोड़ 50 लाख से अधिक नहीं होता है,

(ii) 1 जनवरी, 1981 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1981 की समाप्त होने वाली अवधि के दौरान धरेलू उपभोग के लिए उक्त कारखाने में वियामलाइयों की कुल निकासी, यदि कोई हो, 15 करोड़ से अधिक नहीं होगी;

(iii) विनिर्माता यह धोषणा करता है कि 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारंभ होने वाला और 31 मार्च, 1982 की समाप्त होने वाली अवधि में धरेलू उपभोग के लिए उक्त कारखाने से वियामलाइयों की कुल निकासी तीन करोड़ से अधिक नहीं होने की संभावना है.

परन्तु—

(क) छुट्ट की रकम 50 वियामलाइयों के बक्सों प्रति गुरुस पर 50 पैसे बढ़ा दी जाएगी यदि स्प्लिंटों के लिए या स्प्लिंटों और बेनियरों दोनों के लिए बास का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि ऐसी वियामलाइयों के स्प्लिट बास बनाए जाते हैं और वियामलाइया 40 के हिमाख में बक्सों में पैक की जाती हैं तो शुल्क की दर, समरूप वर्णन की ऐसी वियामलाइयों को जो एक ही कारखानों में उत्पादन की जाती हैं किन्तु वियामलाइया 50 के हिमाख में बक्सों में पैक की जाती हैं, लागू दर की 4/5 होगी और यदि वियामलाइयों की 50 के हिमाख में बक्सों में इस प्रकार पैकिंग नहीं की जाती है तो वह 50 के हिमाख से बक्सों में पैक की गई वियामलाइयों के लिए कारखानिक रूप से व्यवधारित दर की 4/5 होगी.

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात उन वियामलाइयों को लागू नहीं होगी, जिनमें बाहरी स्लाइड या भीतरी स्लाइड या दोनों काईबाई में बनाई जाती है।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) बेनियर चपटी पट्टियों या स्ट्रिप्स को वियामलाई के कागज के प्रयोग से, वियामलाई के बक्स की, जिसके अन्तर्गत बाहरी स्लाइड या भीतरी स्लाइड भी है, आकृति देने की प्रक्रिया,

(ख) फ्रेम भरने;

(ग) वियामलाई की बांती के स्ट्रिप्स के लिए—अन्तिम अवस्था में स्प्लिट का हुआ;

(घ) वियामलाईयों को बक्सों में भरने;

(ङ) वियामलाई के बक्सों या बेनियरों पर छिपका कर या किसी अन्य साधन से पैबल छिपकाने की प्रक्रिया;

(च) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क स्टॉप छिपकाने;

(छ) पैक करने,

क लिए अपनाई जाने वाली पंक्ति प्रक्रिया में निम्न कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी।

[फा० न० 335/24/81 टी० आर० यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उपा निबन्ध

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts matches, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, in respect of the first clearances for home consumption from a factory departmentally run by the Khadi and Village Industries Commission not exceeding thirty million matches cleared during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982, and ending with the 31st day of March, 1982, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 1.60 per gross boxes of 50 matches subject to the condition that clearances from the said factory the aforesaid period does not exceed 37.5 million matches and also subject to the following other conditions, namely:—

(i) the total production of matches in a calendar month during the aforesaid period by the said factory does not exceed 15 million matches;

(ii) the total clearances, if any, of matches from the said factory for home consumption, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1981 and ending on the 31st day of December, 1981 did not exceed 150 million matches;

(iii) the manufacturer make a declaration that the total clearances of matches from the said factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, is not likely to exceed 30 million matches;

Provided that—

(a) the amount of exemption shall be increased by 50 paise per gross boxes of 50 matches if bambo is used for the splints or for both splints and veneers;

(b) if the splints of such matches are made of bamboo and the matches are packed in boxes of 40 matches, the rate of duty shall be four-fifths of the rate applicable to matches of identical description produced in the same factory but packed in boxes of 50 matches and if such packing in boxes of 50 matches is not done, it shall be four-fifths of the notionally determined rate for matches packed in boxes of 50 matches;

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to matches packed in boxes in which the outer slide or the inner slide or both are made of card board

EXPLANATION:—For the purposes of this notification, no process other than the mechanical process employed for—

(a) the process of giving the veneer flats or strips the configuration of a match box including the outer slide or in the inner slide with the use of match paper;

(b) frame filling;

(c) dipping of splints in the composition for match heads;

(d) filling of boxes with matches;

(e) the process of affixing labels, by pasting or any other means, on match boxes or veneers;

(f) affixing of Central Excise Stamps;

(g) packaging;

Shall be deemed to be a process ordinarily carried on with the aid of power.

[F. No. 335/24/81-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

